

जिल्हा परिषदेच्या वर्ग -३ व वर्ग -४ च्या
कर्मचाऱ्यांना आंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक
देण्याबाबत

**महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग**

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: आंजिब ४९१५/(प्र.क्र.१२९/२०१५)/आस्था १४

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२

तारीख: २० मे, २०१५

वाचा

- १) शासन परिपत्रक ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक: जिपब ०७११/प्र.क्र.११३/११/आस्था-१४, दिनांक- २९ सप्टेंबर, २०११
- २) शासन शुध्दीपत्रक ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक: जिपब ०७११/प्र.क्र.११३/११/आस्था-१४, दिनांक- ११ नोव्हेंबर, २०११
- ३) शासन शुध्दीपत्रक ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक: न्यायप्र ०५१२/(प्र.क्र.११८/१२)/आस्था-१४, दिनांक-१८ ऑक्टोबर, २०१२
- ४) शासन शुध्दीपत्रक ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक: जिपब ०९१३/(प्र.क्र.२५१/१३)/आस्था-१४, दिनांक-१८ जानेवारी, २०१४

शासन शुध्दीपत्रक

संदर्भाधीन शासन परिपत्रकात (५) मध्ये " आंतरजिल्हा बदलीसाठी कार्यरत जिल्हा परिषदांमध्ये किमान ५ वर्षे सेवा पूर्ण करण्याची अट आपसी आंतरजिल्हा बदलीसाठी सुध्दा लागू राहिल," असे नमूद केले आहे.

" त्याऐवजी "

(५) " आपसी आंतरजिल्हा बदलीसाठी कार्यरत जिल्हा परिषदेमध्ये किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण करणे आवश्यक राहिल," असे वाचावे.

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०५२०१५४४५५४६२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(अनिल कुलकर्णी)

उपसचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव,
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,
३. मा. मंत्री (ग्रा वि.) यांचे खाजगी सचिव,
४. मा. राज्यमंत्री (ग्रा वि.) यांचे खाजगी सचिव,
५. विभागीय आयुक्त (सर्व विभाग)
६. उपायुक्त (आस्थापना) , विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय (सर्व विभाग)
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व)
८. महालेखापाल (१) व (२)
९. लेखा व कोषागारे , जिल्हा परिषद (सर्व)
१०. मंत्रालयीन विभाग (सर्व)
११. निवडनस्ती, का.क्र. आस्था १४